



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-04072024-255143
CG-RJ-E-04072024-255143

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2442]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 2024/आषाढ 12, 1946

No. 2442]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 2024/ASHADHA 12, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 2 जुलाई, 2024

का.आ. 2577(अ).— (केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 20 क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, उक्त भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य में सवाई माधोपुर बाईपास नई लाइन की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और परिचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने के आशय की घोषणा करती है:

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप धारा(1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा:

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप खंड अधिकारी – सवाई माधोपुर राजस्थान को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आपेक्षकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा:

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप- धारा(२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जिला सवाई माधोपुर में “सवाई माधोपुर बाईपास नई लाइन (देवपुरा से कुस्तला) (13.54 किमी) नाम की विशेष रेल परियोजना“ के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

| क्र.सं. | जिले का नाम | तहसील का नाम | गांव का नाम | खसरा नंबर | अवास रकबा (हेक्टेयर) | भूमि का प्रकार |
|---------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ROB | | | | | |
| 1 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 636 | 0.1057 | निजी |
| 2 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 635 | 0.0349 | निजी |
| 3 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 287/1040 | 0.0578 | सरकारी |
| 4 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 289 | 0.0231 | निजी |
| 5 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 288 | 0.0044 | सरकारी |
| 6 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 287 | 0.0439 | सरकारी |
| 7 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 283 | 0.1100 | सरकारी |
| 8 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 673/1054 | 0.3386 | सरकारी |
| 9 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 673 | 0.0032 | सरकारी |
| 10 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 678 | 0.4879 | सरकारी |
| 11 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 677 | 0.0412 | सरकारी |
| 12 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 285 | 0.0336 | निजी |
| 13 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 284 | 0.0364 | निजी |
| 14 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 282 | 0.0190 | निजी |
| 15 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 283/1039 | 0.0900 | निजी |
| 16 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 281 | 0.0034 | निजी |
| 17 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 679 | 0.0503 | सरकारी |
| | | | | योग | 1.4834 | |
| 18 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 201 | 0.1624 | निजी |
| 19 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 202 | 0.2400 | सरकारी |
| 20 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 208 | 0.1067 | निजी |
| 21 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 1117/231 | 0.0377 | निजी |
| 22 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 207 | 0.3213 | सरकारी |
| 23 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 290 | 0.7122 | सरकारी |
| 24 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 203 | 0.0321 | निजी |
| 25 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 204 | 0.1231 | सरकारी |
| 26 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 205 | 0.0185 | निजी |
| 27 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 206 | 0.7380 | सरकारी |
| 28 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 181 | 0.0051 | निजी |
| 29 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 205/1099 | 0.0366 | सरकारी |

| क्र.सं. | जिले का नाम | तहसील का नाम | गांव का नाम | खसरा नंबर | अवास रकबा (हेक्टेयर) | भूमि का प्रकार |
|---------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 232 | 0.0554 | निजी |
| 31 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 237 | 0.0051 | सरकारी |
| 32 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 238 | 0.0226 | सरकारी |
| 33 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 288 | 0.0202 | निजी |
| 34 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 289 | 0.0495 | निजी |
| 35 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 180 | 0.0866 | निजी |
| 36 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 179 | 0.1054 | निजी |
| 37 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 1111/289 | 0.0700 | निजी |
| 38 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 1110/288 | 0.0334 | निजी |
| 39 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 292 | 0.0040 | निजी |
| 40 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 291 | 0.2094 | निजी |
| 41 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 299 | 0.0298 | निजी |
| 42 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 300 | 0.0882 | निजी |
| 43 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 301 | 0.0338 | निजी |
| 44 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 171 | 0.0531 | निजी |
| 45 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 170 | 0.0042 | निजी |
| 46 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | बोरीफ | 1136/170 | 0.0609 | निजी |
| | | | | योग | 3.4653 | |
| | LC-10 | | | | | |
| 1 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 115 | 0.0082 | निजी |
| 2 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 143 | 0.0416 | निजी |
| 3 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 142 | 0.0111 | निजी |
| 4 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 1117/141 | 0.0050 | निजी |
| 5 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 140 | 0.0177 | निजी |
| 6 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 134 | 0.0050 | निजी |
| 7 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 135 | 0.0022 | निजी |
| 8 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 139 | 0.0015 | निजी |
| 9 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 136 | 0.0152 | निजी |
| 10 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 1115/138 | 0.0344 | निजी |
| 11 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 1116/138 | 0.0179 | निजी |
| 12 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 346 | 0.0009 | निजी |
| 13 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 137 | 0.0245 | निजी |
| | | | | योग | 0.1851 | |
| | LC-12 | | | | | |
| 1 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 24 | 0.0384 | सरकारी |
| 2 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 25 | 0.0142 | निजी |
| 3 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 58 | 0.0158 | निजी |
| 4 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 23 | 0.0291 | सरकारी |
| 5 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 70 | 0.0313 | निजी |
| 6 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 1094/72 | 0.0245 | निजी |

| क्र.सं. | जिले का नाम | तहसील का नाम | गांव का नाम | खसरा नंबर | अवास रकबा (हेक्टेयर) | भूमि का प्रकार |
|---------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 1099/72 | 0.0118 | सरकारी |
| 8 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | जीनापुर | 71 | 0.0015 | निजी |
| | | | | योग | 0.1666 | |
| | | | | कुल योग | 5.3004 | |

[फा. सं. उपरे/मुख्यालय/सं.व.नि./443599200-भाग-9]

ओम प्रकाश तंवर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण-द्वितीय)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 2nd July, 2024

S.O. 2577(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, and operation of the Special Railways Project, namely, Sawai Madhopur By Pass Line project, in District Sawai Madhopur in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Division Officer, Sawai Madhopur, District- Sawai Madhopur, (Rajasthan) in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority

“SCHEDULE”

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project namely: Sawai Madhopur Bypass Line (Devpora to Kushtala 13.54 km) Project in the district of Sawai Madhopur in the state of Rajasthan.

| S. No. | Name of the District | Name of the Tehsil | Name of the Village | Khasra No. | Acquired Area (in Ha) | Type of Land | Nature of Land |
|--------|----------------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ROB | | | | | | |
| 1 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 636 | 0.1057 | Private | Ge. Mu. Aabadi |
| 2 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 635 | 0.0349 | Private | Nahari 2 |
| 3 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 287/1040 | 0.0578 | Government | Ge. Mu. Road |
| 4 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 289 | 0.0231 | Private | Nahari 2 |
| 5 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 288 | 0.0044 | Government | Ge. Mu. Rasta |
| 6 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 287 | 0.0439 | Government | Ge. Mu. Rasta |
| 7 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 283 | 0.1100 | Government | Ge. Mu. Road |
| 8 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 673/1054 | 0.3386 | Government | Ge. Mu. Rasta |

| S. No. | Name of the District | Name of the Tehsil | Name of the Village | Khasra No. | Acquired Area (in Ha) | Type of Land | Nature of Land |
|--------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 673 | 0.0032 | Government | Ge. Mu. Road |
| 10 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 678 | 0.4879 | Government | Ge. Mu. Pal |
| 11 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 677 | 0.0412 | Government | Ge. Mu. Talab |
| 12 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 285 | 0.0336 | Private | Ge. Mu. Aabadi |
| 13 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 284 | 0.0364 | Private | Barani 2 |
| 14 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 282 | 0.0190 | Private | Barani 2 |
| 15 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 283/1039 | 0.0900 | Private | Barani 2 |
| 16 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 281 | 0.0034 | Private | Barani 2 |
| 17 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 679 | 0.0503 | Government | Ge. Mu. Pal |
| | | | | Total | 1.4834 | | |
| 18 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 201 | 0.1624 | Private | Barani 1 |
| 19 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 202 | 0.2400 | Government | Ge. Mu. Road |
| 20 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 208 | 0.1067 | Private | Barani 1 |
| 21 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 1117/231 | 0.0377 | Private | Ge. Mu. Aabadi |
| 22 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 207 | 0.3213 | Government | Ge. Mu. Road |
| 23 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 290 | 0.7122 | Government | Ge. Mu. Road |
| 24 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 203 | 0.0321 | Private | Ge. Mu. Aabadi |
| 25 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 204 | 0.1231 | Government | Ge. Mu. Rasta |
| 26 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 205 | 0.0185 | Private | Barani 1 |
| 27 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 206 | 0.7380 | Government | Ge. Mu. Road |
| 28 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 181 | 0.0051 | Private | Barani 1 |
| 29 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 205/1099 | 0.0366 | Government | Ge. Mu. Rasta |
| 30 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 232 | 0.0554 | Private | Ge. Mu. Aabadi |
| 31 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 237 | 0.0051 | Government | Ge. Mu. Rasta |
| 32 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 238 | 0.0226 | Government | Ge. Mu. Rasta |
| 33 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 288 | 0.0202 | Private | Ge. Mu. Aabadi |
| 34 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 289 | 0.0495 | Private | Barani 1 |
| 35 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 180 | 0.0866 | Private | Ge. Mu. Aabadi |
| 36 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 179 | 0.1054 | Private | Barani 1 |
| 37 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 1111/289 | 0.0700 | Private | Barani 1 |
| 38 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 1110/288 | 0.0334 | Private | Barani 1 |
| 39 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 292 | 0.0040 | Private | Barani 1 |
| 40 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 291 | 0.2094 | Private | Barani 1 |
| 41 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 299 | 0.0298 | Private | Barani 1 |
| 42 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 300 | 0.0882 | Private | Barani 1 |
| 43 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 301 | 0.0338 | Private | Ge. Mu. Aabadi |
| 44 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 171 | 0.0531 | Private | Barani 1 |
| 45 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 170 | 0.0042 | Private | Barani 1 |
| 46 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Borif | 1136/170 | 0.0609 | Private | Barani 1 |
| | | | | Total | 3.4653 | | |
| | LC-10 | | | | | | |
| 1 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 115 | 0.0082 | Private | Barani 2 |
| 2 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 143 | 0.0416 | Private | Barani 2 |
| 3 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 142 | 0.0111 | Private | Barani 2 |
| 4 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 1117/141 | 0.0050 | Private | Barani 2 |
| 5 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 140 | 0.0177 | Private | Barani 2 |
| 6 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 134 | 0.0050 | Private | Barani 2 |
| 7 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 135 | 0.0022 | Private | Barani 2 |
| 8 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 139 | 0.0015 | Private | Barani 2 |
| 9 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 136 | 0.0152 | Private | Barani 2 |
| 10 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 1115/138 | 0.0344 | Private | Barani 2 |
| 11 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 1116/138 | 0.0179 | Private | Barani 2 |
| 12 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 346 | 0.0009 | Private | Barani 2 |
| 13 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 137 | 0.0245 | Private | Barani 2 |
| | | | | Total | 0.1851 | | |
| | LC-12 | | | | | | |

| S. No. | Name of the District | Name of the Tehsil | Name of the Village | Khasra No. | Acquired Area (in Ha) | Type of Land | Nature of Land |
|--------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 24 | 0.0384 | Government | Barani 2 |
| 2 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 25 | 0.0142 | Private | Ge. Mu. Aabadi |
| 3 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 58 | 0.0158 | Private | Barani 2 |
| 4 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 23 | 0.0291 | Government | Barani 2 |
| 5 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 70 | 0.0313 | Private | Barani 2 |
| 6 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 1094/72 | 0.0245 | Private | Barani 2 |
| 7 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 1099/72 | 0.0118 | Government | Ge. Mu. Aabadi |
| 8 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Jeenapur | 71 | 0.0015 | Private | Barani 2 |
| | | | | Total | 0.1666 | | |
| | | | | Grand Total | 5.3004 | | |

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.-IX]

OM PRAKASH TANWAR, Chief Administrative Officer (Const-II)